



पत्रांक:-मे०का०दे० / विज्ञापित / फ़ैकल्टी / 2022-23

दिनांक 02/12/22

### विज्ञापित

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी रात्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया के आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों की संख्या निम्नवत है:-

क्र.सं.	विशिष्टता	आचार्य		सह-आचार्य		सहायक आचार्य	
		पदों की संख्या	श्रेणी	पदों की संख्या	श्रेणी	पदों की संख्या	श्रेणी
01	आर्थोपेडिक्स	01	OBC	02	02-SC	03	02-UR 01-OBC
02	आथलमोलॉजी	01	UR	01	UR	--	--
03	आब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गाइनकोलॉजी	01	SC	01	OBC	02	02-OBC
04	इमरजेन्सी मेडिसिन	--	--	01	OBC	03	01-EWS 01-SC 01-UR
05	एनाटॉमी	--	--	--	--	01	SC
06	एनेस्थीसियोलॉजी	01	OBC	02	01-SC 01-UR	03	01-UR 02-OBC
07	ओटो-राइनो-लैरिगोलॉजी	--	--	01	UR	01	OBC
08	कम्युनिटी मेडिसिन	01	EWS	02	01-SC 01-UR	02	01-SC 01-UR
09	जनरल मेडिसिन	01	OBC	02	01-OBC 01-UR	02	01-UR 01-SC
10	जनरल सर्जरी	01	UR	02	01-OBC 01-EWS	--	--
11	ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन / पल्मोनरी मेडिसिन	--	--	01	SC	02	01-UR 01-OBC
12	डर्मटोलॉजी वेनेरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी	--	--	01	UR	01	UR
13	डेंटिस्ट्री	01	SC	--	--	--	--
14	पीडियाट्रिक्स	01	UR	--	--	03	01-OBC 01-EWS 01-SC
15	पैथालोजी	01	OBC	01	OBC	02	01-UR 01-OBC
16	फार्माकोलॉजी	01	UR	01	SC	02	01-UR 01-SC
17	फिजियोलोजी	01	SC	--	--	01	EWS
18	फोरेन्सिक मेडिसिन	01	SC	01	UR	04	02-UR 02-SC
19	माइक्रोबायोलॉजी	01	UR	--	--	03	01-SC 01-EWS 01-UR
20	बायोकेमेस्ट्री	--	--	01	OBC	01	OBC
21	रेडियोलॉजी	01	OBC	01	OBC	03	01-OBC 01-UR 01-SC
22	साइकियाट्री	--	--	01	EWS	01	SC
कुल योग		15		22		40	

-:Qualifications:-

Posts	Academic Qualification	Teaching & Research Exp.
Professor	A post graduate qualification MD/MS/DNB in the concerned subject and as per these Regulations	<p>(i) Associate Professor in the subject for 3 years in a permitted/approved/ recognized medical college/institution with three Research publications (at least two as Associate Professor) (only original papers, meta-analysis, systematic reviews, and case series that are published in journals included in Medline, Pubmed Central, Citation index, Sciences Citation index, Expanded Embase, Scopus, Directory of Open access journals (DoAJ) will be considered). The author must be amongst first three or should be the Corresponding author.</p> <p>(ii) Should have completed the Basic course in Medical Education Technology from Institution(s) designated by MCI.</p> <p>(iii) Should have completed the Basic course in biomedical research from Institution(s) designated by MCI.</p> <p><b>As per NMC Gazette Dated 17, February, 2020, for the appointment to the post of Professor "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998" as prevailing before issuance of this notification will also be Considered.</b></p>
Associate Professor	A post graduate qualification MD/MS/ DNB in the concerned subject and as per these Regulations	<p>(i) As Assistant Professor in the subject for 4 years in a permitted/approved/recognized medical college/ institution with one Research publication (only original papers, meta-analysis, systematic reviews, and case series that are published in journals included in Medline, Pubmed Central, Citation index, Sciences Citation index, Expanded Embase, Scopus, Directory of Open access journals (DoAJ) will be considered). The author must be amongst first three or should be the Corresponding author.</p> <p>(ii) Research project in lieu of publication/authorship can be considered only if the person is Principal or Co-Principal investigator (PI/CoPI) of a research project funded by a national research body such as Indian Council for Medical Research (ICMR), Department of Science &amp; Technology (DST), Department of BioTechnology (DBT) or any such body.</p> <p>(iii) Should have completed the Basic course in Medical Education Technology from Institution(s) designated by MCI.</p> <p>(iv) Should have completed the Basic course in biomedical research from Institution(s) designated by MCI.</p> <p><b>As per NMC Gazette Dated 17, February, 2020, for the appointment to the post of Associate Professor "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998" as prevailing before issuance of this notification will also be Considered.</b></p>
Assistant Professor	A post graduate qualification MD/MS/DNB in the concerned subject and as per these Regulations.	<p>For Candidates with MD/MS, 3 years Junior Resident in a recognized/permitted medical college in the concerned subject and One year as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/permitted medical college. In case of DNB candidate one year as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/permitted medical college is required after DNB degree being equated to MD/MS in terms of clause 4A of Schedule-I.</p> <p>For No. 13 (Asstt Professor- Dentistry)-</p> <p>(i) Post graduate degree in the subject concerned (M.D.S.) or an equivalent qualification as recognized by appropriate council.</p> <p>(ii) Three years of teaching experience in the Subject in a recognized Medical College/University/Institution as resident/ Registrar/ Demonstrator/Tutor as a postgraduate Student and in addition one year experience as Senior Resident in the concerned subject in a recognized Medical College/ University/Institution.</p>



1. आयु:- उपर्युक्त पदों के लिये अभ्यर्थी की आयु कैलेण्डर वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम उम्र 26 से कम एवं अधिकतम उम्र 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
2. वेतनमान:-  
 क. आचार्य-एकेडमिक लेवल-14 इन्ट्री पे रू0- 1,44,200.00  
 ख. सह आचार्य-एकेडमिक लेवल-13ए इन्ट्री पे रू0-1,31,400.00  
 ग. सहायक आचार्य-एकेडमिक लेवल-11 इन्ट्री पे रू0-68,900.00  
 (राज्य सरकार द्वारा राजकीय मेडिकल कालेजों में आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य को प्रदत्त वेतन/भत्ते मान्य होंगे।)
3. आवेदन शुल्क:-  
 रूपये-1000.00 (एक हजार रुपये मात्र ) का आवेदन शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में "प्रधानाचार्य, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया" के पक्ष में देय होगा।
4. चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
5. पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
6. इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित आवेदन प्रपत्र को (वेबसाइट <http://mdbmc.in> और [www.updgm.com](http://www.updgm.com)) से डाउनलोड करके पूर्ण रूप से भरकर, अपने समस्त प्रमाण पत्रों को सत्यापित करते हुये दिनांक 31.12.2022 को सायं 05:00 बजे तक प्रधानाचार्य, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया- 274001 में केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
7. अन्तिम तिथि एवं समय के पश्चात तथा अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

**Qualification and pay scale for selected candidates as Designated Professor and Designate Associate Professor:-**

**1. Designate Professor:** "The requisite experience for equating a Consultant or Specialist (After possessing postgraduate medical degree in the subject) working in the concerned specialty in the minimum 300 bedded State Government/Central Government Hospitals as professor shall be more than 18 years with four Research publication in indexed journal as 1<sup>st</sup> Author or corresponding author. Such Consultant or Specialist after joining a medical college shall be called as "Designate Professor" and on completion of three years experience in the capacity of Designate Professor such person shall be designated as "Professor" as per MCI norms.

**2. Designate Associate Professor:** "The requisite experience for equating a Consultant or specialist (after possessing postgraduate medical degree in the subject) working in the concerned specialty in the minimum 300 bedded non teaching District Hospitals owned & managed by State Govt/Central Govt. as Associate professors shall be more than 10 years with Two Research publication in indexed journals as 1<sup>st</sup> Author or corresponding author. Such Consultant or Specialist after joining a medical college shall be designate as "Associate Professor"

**3. वेतनमान आदि:-** मूल विभाग से प्राप्त देयतायें, वेतन, पेंशन एवं ग्रेज्युटी आदि यथावत देय होंगी।

**4. Designate Professor and Designate Associate Professor will be considered on deputation from their parent department.**

प्रधानाचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य  
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।  
तददिनांकित

पत्रांक:-मे0का0दे0/फैकल्टी/नियु0/2022-23/1182

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 शासन लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 शासन लखनऊ।
03. मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
04. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, देवरिया को इस आशय से प्रेषित कि नियमानुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापित करने के पश्चात बिल सत्यापित कर, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रेषित करें।
05. इंचार्ज, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया की वेबसाइट को इस आशय के साथ प्रेषित की इस विज्ञापित को वेबसाइट पर प्रकाशित करें।
06. नोटिस बोर्ड, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।

प्रधानाचार्य,

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य  
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।



**13-Educational Qualifications: (Enclose attested photo copies of certificates and marks sheets)**

No.	Name of the Examination	Institution / Board / University	Year	Subject	Marks Obtained / Max Marks	MBBS Total Marks / percentage	effort (attempts)
1	MBBS						
2	MD/MS						
3	DM/MCH						

**14-Educational experience:-**

No.	Designation	From	To	Duration	Name of the Institution
1	Professor				
2	Associate Professor				
3	Asstt. Professor				
4	S.R. / Tutor / Demonstrator				

(Attach experience certificate)

**15-Research Publications:-**

No.	Designation	Research Publications
1	Professor	
2	Associate Professor	
3	Asstt. Professor	
4	S.R. / Tutor / Demonstrator	

(Attach Photo Copy)

16-If candidates serving in Government/ Quasi Government or Public Sector are advised to submit 'No Objection Certificate' from their employer at the time of interview, failing which their candidature may not be considered.

17-Demand Draft Detail- Date....., Amount-.....  
Bank Name....., DD No.....

18-List of attached certificates as per checklist.....

Place.....

Date.....

Full name and Signature of the Applicant



**// Announcement //**

**1. I certify that the above information given by me is complete and true. In the event of information being false, my application form / appointment letter can be cancelled.**

**2. I certify that I have not been found guilty by any court of any offense of moral decimation nor is there any such case against me in any jurisdiction.**

**Place.....**

**Date.....**

**Full Name and Signature of the Applicant**